



PON VIDYASHRAM GROUP OF SENIOR SEC. SCHOOLS

DECEMBER MONTH- HINDI NOTES FOR CLASS- VII

ACADEMIC YEAR – 2024-2025

DECEMBER MONTH PORTION:

पाठ - 13 – एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी

I शब्दार्थ:-

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. गौरव - प्रतिष्ठा -dignity | 6. अवसर - मौका - oppurtunity |
| 2. राष्ट्रभाषा - राष्ट्र की भाषा - national language | 7. प्रसिध्द – विख्यात - famous |
| 3. उच्च शिक्षा - विशेष शिक्षा - higher education | 8. श्रोतागण – सुननेवाले - audience |
| 4. सुरीला – मधुर - melodious | 9. योगदान-सहयोग करना - contribution |
| 5. पुरस्कार – उपहार - gift | 10. सदियों -बहुत पहले – centuries |

II सही विकल्प चुनिए :-

- 1.संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से योग दिवस मनाने का आह्वान किसने किया? -नरेंद्र मोदी ने
- 2.किस फिल्म में सुब्बुलक्ष्मी की भूमिका यादगार रही ? - मीरा
- 3.सुब्बुलक्ष्मी को तपस्विनी किसने कहा ? - लता मंगेशकर ने

III मौखिक प्रश्नोत्तर:-

1. कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा है ?
- उ: कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कलानिधि है।

IV लिखित प्रश्नोत्तर :-

1. राष्ट्रभाषा का सम्मान किसने और कैसे बढ़ाया ?

उ: पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र की सभा को हिंदी में संबोधित कर विश्व स्तर पर राष्ट्रभाषा का मान बढ़ाया।

2 महात्मा गाँधी ने सुब्बुलक्ष्मी द्वारा मीरा फिल्म में गाए भजन के लिए क्या कहा?

उ: महात्मा गाँधी ने कि यदि सुब्बुलक्ष्मी मीरा के भजन को गाने के बजाए बोल भी दें, तब भी उनको वह भजन किसी और के गाने से अधिक सुरीला लगेगा।

3. एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को किन-किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया ?

उ: एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को पद्म - भूषण , संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत कलानिधि, रमन मैगसेसे, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान, इंदिरा गांधी अवार्ड एवं भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

भाषा से...

I इन वाक्यों में आये सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए :

क) 1966 में इस मंच से **मैंने** संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

ख) **उसने** **मुझे** उस्ताद के नाम से सम्बोधित किया।

ग) मीरा फिल्म में **इनकी** भूमिका यादगार रही।

घ) **आपने** संगीत सुना।

II निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए :

1. छोटी X बड़ी

2. अच्छाई X बुराई

3. नैतिक X अनैतिक

4. ज्ञान X अज्ञान

III इन वाक्यों को हिंदी और अपनी मातृभाषा में लिखिए:

क. Music is my soul .

संगीत ही मेरी आत्मा है।

ख. Lata Mangeshkar called her Tapaswini.

लता मंगेशकर ने उन्हें "तपस्विनी" कहा।

ग. In 1966 , M.S. Subbulaxmi presented her music programme in U.N.O.

एम.एस.सुब्बुलक्ष्मी ने 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर संगीत कार्यक्रम पेश किया।

4. पढ़िए, समझिए और लिखिए:-

1. प्रधान है जो मंत्री - प्रधानमंत्री
2. राष्ट्र की भाषा - राष्ट्रभाषा
3. राष्ट्र का पिता - राष्ट्रपिता
4. महान है जो आत्मा - महात्मा

*** FOR III LANGUAGE – EXCLUDE "लिखित प्रश्नोत्तर"**
